No. of Printed Pages: 8

Time: 3 hours

CFN-1

Maximum Marks: 100

## CERTIFICATE PROGRAMME IN FOOD AND NUTRITION (CFN)

## **Term-End Examination**

04942 December, 2017

CFN-1: YOU AND YOUR FOOD

No		-	on no. <b>1</b> is <b>compulsory</b> . Answer <b>j</b> ons in all. All questions carry equal marks	
1.	(a)	Defineach	ne/Explain the following in $2-3$ lines:	10
		<b>(i)</b>	Puberty	
		(ii)	Enzyme	
		(iii)	Pounding	
		(iv)	Inversion of sugar	
		(v)	Browning of cut fruits	
	(b)	Fill i	n the blanks :	10
		(i)	Food provides us to do work.	
		( <b>ii</b> )	Excess of carbohydrate intake can	
			lead to	
		(iii)	Twelve grams of mustard oil will provide kcal energy.	
CFI	N-1		1 P.1	.O.

		(14)		
		(v)	Egg is a food in the cont of food spoilage.	ext
-		(vi)	is the method of cooks food in just enough fat or oil to cothe base of the pan.	•
-		(vii)	Ragi is a rich source of	
		(viii)	Sprouting of pulses increases content.	the
		(ix)	is a fine dispersion of an or fat in water.	oil
	·	( <b>x</b> )	The stimulant present in coffee	is
2.	(a)		ibe briefly the factors that influen acceptance of food. Give suitab ples.	
	(b)		are the physiological functions Explain.	of
3.			unctions and list three important foo the following nutrients :	od 8+6+6
	(i)	Protei	ins	
	(ii)	Vitan	nin A	
	(iii)	Calciu	ım	

2

. CFN-1

4	. (a)	Discuss the nutritional adequacy of	of		
•		vegetarian and non-vegetarian diets.	Į		
	(b)	Comment on the following briefly:	6+6		
		(i) Effect of cooking methods on food			
		(ii) Effect of pre-cooking methods on the quality of food	ie		
5.	(a)	How would you classify food into different	t		
		food groups? Explain the significance of the			
		food groups. Give examples.	10		
	(b)	What points would you keep in mind whil	e -		
		selecting the following?	5+5		
		(i) Cereals			
		(ii) Vegetables	,		
6.	(a)	Describe the general rules of personal and food hygiene while handling food.	10		
	(b)	List common causes of food spoilage. Classify			
		the foods on the basis of their perishability.	10		
<b>7.</b>	(a)	What are convenience foods? Highlight the			
		advantages and disadvantages of using			
	<b>(1.)</b>	convenience foods. Give suitable examples.	10		
	(b)	Comment on the uses of sugar and beverages			
		in our diet.	<i>5</i> + <i>5</i>		
CFN	<b>N</b> -1	3 р	ΤO		

3

P.T.O.

- 8. Write short notes on any **four** of the following: 5+5+5+5
  - (a) Nutritive value of nuts and oil seeds
  - (b) Effects of deficiency of vitamin D in children and adults
  - (c) Food preservation methods
  - (d) Functions of water
  - (e) Digestion of food

## भोजन और पोषण में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम (सी.एफ.एन.) सत्रांत परीक्षा

## दिसम्बर, 2017

सी.एफ.एन.-1: आप और आपका भोजन

समय : ३ घ	चण्टे	अधिकतम अंक	: 100
		<b>1 अनिवार्य है</b> । कुल <b>पाँच</b> प्रश्नों के उत्तर दी। नों के अंक समान हैं ।	जिए ।
1. (क)		लेखित प्रत्येक को 2-3 पंक्तियों में षित/स्पष्ट कीजिए :	10
	(i)	यौवनारंभ	
	(ii)	एंज़ाइम	
	(iii)	कूटना	
	(iv)	शर्करा की विपरीत क्रिया	
	(v)	कटे हुए फलों का रंग भूरा होना	
(ख)	रिक्त स	थानों की पूर्ति कीजिए :	10
	(i)	भोजन हमें कार्य करने के लिए प्रदान करता है।	
	(ii).	कार्बोज़ का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से हो सकता है।	
	(iii)	बारह ग्राम सरसों का तेल kcal ऊर्जा प्रदान करेगा।	
CFN-1		5	-

		(iv)	आम के अच्छे स्रोत हैं।	
		(v)	खाद्य-पदार्थ ख़राब होने के संदर्भ में अंडा	
		-	खाद्य-पदार्थ है ।	
		(vi)	भोजन पकाने की वह विधि है	
			जिसमें बहुत ही कम मात्रा (जो केवल पैन के	
			तल का लेपन करे) में वसा या तेल का	
			इस्तेमाल किया जाता है ।	
		(vii)	रागी का उत्तम स्रोत है।	
		(viii)	दालों को अंकुरित करने से उनमें	
			की मात्रा बढ़ जाती है ।	
		(ix)	है जल में तेल या वसा को इस	
			तरह मिलाना कि वह छोटे-छोटे कणों में टूट	
			कर पानी में फैल जाए ।	
		(x)	कॉफी में उद्दीपक पाया जाता है।	
2.	(क)		खाद्य-स्वीकार्यता को प्रभावित करने वाले	
			का संक्षेप में वर्णन कीजिए । उचित उदाहरण	10
		भी दीन	•	12
	(碅)	भोजन कीजिए	के शरीर-क्रियात्मक कार्य क्या हैं ? व्याख्या	8
		•	•	Ü
3.			पोषक-तत्त्वों के कार्य और उनके तीन-तीन	2.6
	महत्त्व	•	द्य स्रोत बताइए : 8+6	) <del>+</del> 0
	(i)	प्रोटीन		
	(ii)	विटामि	ान ए	
	(iii)	कैल्सि	यम	

<ul> <li>(ख) निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए: 6+6</li> <li>(i) भोजन पर पकाने की विधियों का प्रभाव</li> <li>(ii) भोजन की गुणवत्ता पर भोजन पकाने के पूर्व खाद्य-पदार्थों की तैयारी का प्रभाव</li> <li>5. (क) भोजन को आप अलग-अलग खाद्य समूहों में कैसे वर्गीकृत करेंगे? खाद्य-समूहों के महत्त्व की व्याख्या</li> </ul>			
(i) भोजन पर पकाने की विधियों का प्रभाव (ii) भोजन की गुणवत्ता पर भोजन पकाने के पूर्व खाद्य-पदार्थों की तैयारी का प्रभाव  5. (क) भोजन को आप अलग-अलग खाद्य समूहों में कैसे वर्गीकृत करेंगे ? खाद्य-समूहों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । उदाहरण दीजिए । 10 (ख) निम्निलिखित का चयन करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे ? 5+5 (i) अनाज (ii) सब्ज़ियाँ  6. (क) भोजन पकाते व परोसते समय व्यक्तिगत और खाद्य-स्वच्छता संबंधी सामान्य नियमों का वर्णन कीजिए । 10 (ख) खाद्य-पदार्थ के ख़राब होने के सामान्य कारणों को सूचीबद्ध कीजिए । उनके ख़राब होने के आधार पर खाद्य-पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए । 10  7. (क) सुविधाजनक खाद्य-पदार्थ क्या हैं ? सुविधाजनक खाद्य-पदार्थों का प्रयोग करने के लाभ व हानियों पर प्रकाश डालिए । उपयुक्त उदाहरण दीजिए । 10 (ख) हमारे आहार में शर्करा और पेय-पदार्थों के प्रयोगों पर टिप्पणी कीजिए । 5+5			4.
(ii) भोजन की गुणवत्ता पर भोजन पकाने के पूर्व खाद्य-पदार्थों की तैयारी का प्रभाव  5. (क) भोजन को आप अलग-अलग खाद्य समूहों में कैसे वर्गीकृत करेंगे ? खाद्य-समूहों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । उदाहरण दीजिए । 10  (ख) निम्निलिखित का चयन करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे ? 5+5  (i) अनाज  (ii) सब्ज़ियाँ  6. (क) भोजन पकाते व परोसते समय व्यक्तिगत और खाद्य-स्वच्छता संबंधी सामान्य नियमों का वर्णन कीजिए । 10  (ख) खाद्य-पदार्थ के ख़राब होने के सामान्य कारणों को सूचीबद्ध कीजिए । उनके ख़राब होने के आधार पर खाद्य-पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए । 10  7. (क) सुविधाजनक खाद्य-पदार्थ क्या हैं ? सुविधाजनक खाद्य-पदार्थों का प्रयोग करने के लाभ व हानियों पर प्रकाश डालिए । उपयुक्त उदाहरण दीजिए । 10  (ख) हमारे आहार में शर्करा और पेय-पदार्थों के प्रयोगों पर टिप्पणी कीजिए । 5+5	र संक्षेप में टिप्पणी कीजिए : 6+6	(ख) नि	
खाद्य-पदार्थों की तैयारी का प्रभाव  5. (क) भोजन को आप अलग-अलग खाद्य समूहों में कैसे वर्गीकृत करेंगे ? खाद्य-समूहों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए। उदाहरण दीजिए।  (ख) निम्नलिखित का चयन करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे ?  (i) अनाज  (ii) सिब्ज़ियाँ  6. (क) भोजन पकाते व परोसते समय व्यक्तिगत और खाद्य-स्वच्छता संबंधी सामान्य नियमों का वर्णन कीजिए।  (ख) खाद्य-पदार्थ के ख़राब होने के सामान्य कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। उनके ख़राब होने के आधार पर खाद्य-पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए।  7. (क) सुविधाजनक खाद्य-पदार्थ क्या हैं ? सुविधाजनक खाद्य-पदार्थों का प्रयोग करने के लाभ व हानियों पर प्रकाश डालिए। उपयुक्त उदाहरण दीजिए।  (ख) हमारे आहार में शर्करा और पेय-पदार्थों के प्रयोगों पर टिप्पणी कीजिए।	पर पकाने की विधियों का प्रभाव	(i)	- ·
वर्गीकृत करेंगे ? खाद्य-समूहों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । उदाहरण दीजिए । 10 (ख) निम्नलिखित का चयन करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे ? 5+5 (i) अनाज (ii) सिब्ज़ियाँ 6. (क) भोजन पकाते व परोसते समय व्यक्तिगत और खाद्य-स्वच्छता संबंधी सामान्य नियमों का वर्णन कीजिए । 10 (ख) खाद्य-पदार्थ के ख़राब होने के सामान्य कारणों को सूचीबद्ध कीजिए । उनके ख़राब होने के आधार पर खाद्य-पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए । 10 7. (क) सुविधाजनक खाद्य-पदार्थ क्या हैं ? सुविधाजनक खाद्य-पदार्थों का प्रयोग करने के लाभ व हानियों पर प्रकाश डालिए । उपयुक्त उदाहरण दीजिए । 10 (ख) हमारे आहार में शर्करा और पेय-पदार्थों के प्रयोगों पर टिप्पणी कीजिए । 5+5		(ii	
(ख) निम्नलिखित का चयन करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे ? 5+5  (i) अनाज (ii) सिब्ज़ियाँ  6. (क) भोजन पकाते व परोसते समय व्यक्तिगत और खाद्य-स्वच्छता संबंधी सामान्य नियमों का वर्णन कीजिए। 10  (ख) खाद्य-पदार्थ के ख़राब होने के सामान्य कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। उनके ख़राब होने के आधार पर खाद्य-पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए। 10  7. (क) सुविधाजनक खाद्य-पदार्थ क्या हैं ? सुविधाजनक खाद्य-पदार्थों का प्रयोग करने के लाभ व हानियों पर प्रकाश डालिए। उपयुक्त उदाहरण दीजिए। 10  (ख) हमारे आहार में शर्करा और पेय-पदार्थों के प्रयोगों पर टिप्पणी कीजिए। 5+5	? खाद्य-समूहों के महत्त्व की व्याख्या	वर्ग	5.
ध्यान में रखेंगे ?  (i) अनाज  (ii) सब्ज़ियाँ  6. (क) भोजन पकाते व परोसते समय व्यक्तिगत और खाद्य-स्वच्छता संबंधी सामान्य नियमों का वर्णन कीजिए ।  (ख) खाद्य-पदार्थ के ख़राब होने के सामान्य कारणों को सूचीबद्ध कीजिए । उनके ख़राब होने के आधार पर खाद्य-पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए ।  7. (क) सुविधाजनक खाद्य-पदार्थ क्या हैं ? सुविधाजनक खाद्य-पदार्थों का प्रयोग करने के लाभ व हानियों पर प्रकाश डालिए । उपयुक्त उदाहरण दीजिए ।  (ख) हमारे आहार में शर्करा और पेय-पदार्थों के प्रयोगों पर टिप्पणी कीजिए ।  5+5		_	
(ii) सब्ज़ियाँ  6. (क) भोजन पकाते व परोसते समय व्यक्तिगत और खाद्य-स्वच्छता संबंधी सामान्य नियमों का वर्णन कीजिए।  (ख) खाद्य-पदार्थ के ख़राब होने के सामान्य कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। उनके ख़राब होने के आधार पर खाद्य-पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए।  7. (क) सुविधाजनक खाद्य-पदार्थ क्या हैं ? सुविधाजनक खाद्य-पदार्थों का प्रयोग करने के लाभ व हानियों पर प्रकाश डालिए। उपयुक्त उदाहरण दीजिए।  (ख) हमारे आहार में शर्करा और पेय-पदार्थों के प्रयोगों पर टिप्पणी कीजिए।  5+5			
खाद्य-स्वच्छता संबंधी सामान्य नियमों का वर्णन कीजिए। 10 (ख) खाद्य-पदार्थ के ख़राब होने के सामान्य कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। उनके ख़राब होने के आधार पर खाद्य-पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए। 10 7. (क) सुविधाजनक खाद्य-पदार्थ क्या हैं ? सुविधाजनक खाद्य-पदार्थों का प्रयोग करने के लाभ व हानियों पर प्रकाश डालिए। उपयुक्त उदाहरण दीजिए। 10 (ख) हमारे आहार में शर्करा और पेय-पदार्थों के प्रयोगों पर टिप्पणी कीजिए। 5+5			
(ख) खाद्य-पदार्थ के ख़राब होने के सामान्य कारणों को सूचीबद्ध कीजिए । उनके ख़राब होने के आधार पर खाद्य-पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए । 10  7. (क) सुविधाजनक खाद्य-पदार्थ क्या हैं ? सुविधाजनक खाद्य-पदार्थों का प्रयोग करने के लाभ व हानियों पर प्रकाश डालिए । उपयुक्त उदाहरण दीजिए । 10  (ख) हमारे आहार में शर्करा और पेय-पदार्थों के प्रयोगों पर टिप्पणी कीजिए । 5+5	संबंधी सामान्य नियमों का वर्णन	खा	6.
7. (क) सुविधाजनक खाद्य-पदार्थ क्या हैं ? सुविधाजनक खाद्य-पदार्थों का प्रयोग करने के लाभ व हानियों पर प्रकाश डालिए । उपयुक्त उदाहरण दीजिए । 10 (ख) हमारे आहार में शर्करा और पेय-पदार्थों के प्रयोगों पर टिप्पणी कीजिए । 5+5	ए । उनके ख़राब होने के आधार पर	सूर्च	
खाद्य-पदार्थों का प्रयोग करने के लाभ व हानियों पर प्रकाश डालिए। उपयुक्त उदाहरण दीजिए। 10 (ख) हमारे आहार में शर्करा और पेय-पदार्थों के प्रयोगों पर टिप्पणी कीजिए। 5+5			
प्रकाश डालिए । उपयुक्त उदाहरण दीजिए । 10 (ख) हमारे आहार में शर्करा और पेय-पदार्थों के प्रयोगों पर टिप्पणी कीजिए । 5+5			7.
(ख) हमारे आहार में शर्करा और पेय-पदार्थों के प्रयोगों पर टिप्पणी कीजिए। 5+5			
टिप्पणी कीजिए। 5+5	शर्करा और पेय-पदार्थों के प्रयोगों पर	(ख) हमा	
		N-1	CFN

- 8. निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए: 5+5+5+5
  - (क) मेवों (नट्स) और तिलहनों के पोषक मान
  - (ख) बच्चों और वयस्कों में विटामिन डी की कमी के प्रभाव
  - (ग) खाद्य परिरक्षण विधियाँ
  - (घ) जल के कार्य
  - (ङ) भोजन का पाचन